DPN 6627

Title : मन्त्र MANTRA

Run. No. 7352

Cat. No. 27

Micro. No.

Subject मन्त्र Mantra

Religion : Hindu / Bauddha

Language : Skt. / New. / Nep. / Skt.- New. / Maith.- New. / New.- Nep. /

Size in cms. 14 · 8 × 6

Folios 2 (2-3) (Missing - 1)

Lines (in a page) 6

Compl. / Incompl.

Chapt. / act /

Author / translator

Scribe / donor डा. कमलप्रकाश मल्ल

Date: NS / SS / VS / KS

Ruler / place Dr. Kamala Prasha Malla

Script : New. / Dev. / Bhuj. / Ran. /

Illus. :

Material : palmleaf / paper / thyasaphu /

Condition : fine / damaged by worms, rats, water /

Beginning, colophon, post-colophon :

रक्षा, देवं पुनाइःगु, मिंपुगु, मिखाय् खु वःगु, ग्रहनीया झारे यायेगु मन्त्र /

स्मामकि, आकर्षे रक्षाकमा स्मरु ण जयुयः धुण्डुकान खन स्वान स्मार

ग, वुयथन इवान भ्म नाम कायरु आकर्लौं॥ ॥ॐ नमा आरसवीवि

छकु थयाकाक, थकाल, गाहास्तुसा यू नाखना कुडका थनि थ्वनिया, स्वा

स्वथ्व विया, वान थ्व विया, क्षआका थ्व जिया, वान मायाके थ्वयन मा

यू, थान आः ॐ॰ थायह निडकस्वमा च्यू आयगुथीलिया, स्वाङुवि

थासम्ह रुनुयाः इकान भास्तुप॥ वस्य, स्वमस्वयके॥ ॥ॐकानया, स्वा

नमामि॥ ॥ॐ ह्रिँ ह्रिँ ह्रुँ ह्रुँ ह्रुँ फट् स्वाहा॥ नमो सिद्धकाउ न गथिनथ
केम ओह्यांसिमा॥ ० ॥ओं स्तु ओं स्तु विह्रुं फट् स्वाहा॥ पुंया॥ ० ॥ल्वथ ल्वथ
ल्वथल ल्वाप ल्वाप ल्वाप ह्रुँ फट् स्वाहा॥ द्दिम १०० ॥ ॥ह्रिं ह्रिं ह्रुं फट् स्वाहा॥ २
भा ४ मिंयू कया॥ वृ ३॥ ॥हसे यं श्री ह्रूं वक स्वाहा॥ नुगस्तु ३॥ २॥
ह्रुं किलि किलि किलि स्वाहा ह्रुं याति यं स्वाहा रक्षा ३ ॥वाकिलि॥ ० ॥ओं स्तु स्वाहा
दिदि ह्रुं फट् स्वाहा। भा १॥ सिलस याहा गनथिस्यं जुयथे॥ ॥रवं यूहस्या॥

॥वासि वालिवि थस्यायग काउ स्याध्यस्याद मसाहास मालिस्वाकि गुथ
ह्रय मन्त्र ॐ आवाकि वाय हसकाथन मस्त्रव भा ३ बग वायन स्त्रीकवस्तु यस्तुलि नाय
स्वाहा वद्वि मन्त्र जंन्वा यहस्या॥ • ॥ॐ ह्रियं फट् स्वाहा॥ भा १ ॥मिंयू कया॥
ओं हननास यं स्लव थाथि नास य ह्रुँ फट् स्वाहा॥ भा १ ॥चिकनन थ्याभिस्य मन्त्र॥
ॐ आसिव दक दुव कं जुयि वध्य कया सकं याचा वाय वाकाल मस्व थियिय यं स्लंथः
वृका वाजु वावृ रुयं स्वाहा॥ भा १ ॥मिम्वा वृ कयूस्य॥ ॥ॐ रासि इय भायवि स्लूयाः

लयकाविद्य श्री नामयाउँ ॥ श्री गुरु आय । गढनिवाउँया । अन । ह्स्वक्षायययं मानका ॥
ॐ ह्रूं विज्ञकाविउँ श्री गुरु आग्यानअ ३ ॥ हूं दकार्वविय ३ ॥ ॥ ॥ उँ नमायम
हस्वयियिऊस्व वाकक्रिनव शूलक्रमायायुस ॐ सक्रयास्मधाकुलवाहृद्दयिम
उकदाद्धि श्री ॐ ध्वकिवावा ॥ लेम्वक्रायचययेमान कारदयाहिं ॥ अ २८ ॥ ॥ उँ ३
नूआस्तुउँ ल्मायाखनिस्वकस्वलाखनिवरासावकासाइस्मिधिगुरु आग्यान अ
वकाया ॥ ॥ उँ मालिनिमायक्रनामदाभवस्वाहमावास्रुशाकि